



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 546) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना
24 मार्च 2015

सं0 1801—दरभंगा जिलान्तर्गत कमतौल थाना के ग्राम-अहियारी स्थित अहिल्या स्थान पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3957 है। रामायण काल से जुड़े होने के कारण अहिल्या स्थान सनातन धर्मात्मिकों के लिए आस्था एवं विश्वास का प्रमुख केन्द्र रहा है। यो तो यहाँ सालोभर श्रद्धालु भक्त पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, किन्तु रामनवमी, विवाहपंचमी आदि अवसरों पर यहाँ काफी भीड़ होती है।

इस पौराणिक स्थान के सुचारु प्रबंधन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-467, दिनांक 09.06.2009 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अतः इसके प्रबंधन के लिए एक विस्तृत योजना का निरूपण तथा नई न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अहिल्या स्थान की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

- अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नामा “अहिल्या स्थान न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “अहिल्या स्थान न्यास समिति” होगा।
- अहिल्या स्थान मन्दिर तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार अहिल्या स्थान न्यास समिति में निहित होगा।
- इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
- अहिल्या स्थान का माहात्म्य एवं गरिमा अतीत में गौरवपूर्ण होने के कारण न्यास समिति इसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हर सार्थक प्रयास करेगी।
- मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।

6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

7. न्यास समिति मन्दिर के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

8. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। रामनवमी, विवाह पंचमी आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।

9. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षर से होगा।

10. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी।

11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।

12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

13. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी।

14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

15. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|---|-----------|
| (1) डा० कवीश्वर ठाकुर, ग्राम+पो०-अहियारी, दरभंगा | — अध्यक्ष |
| (2) श्री बिबेकानन्द झा, उप विकास आयुक्त, दरभंगा | — सचिव |
| (3) डा० जयशंकर झा, संस्कृत विभाग, मिथला विश्वविद्यालय, दरभंगा | — सदस्य |
| (4) अंचलाधिकारी, जाले, दरभंगा | — सदस्य |
| (5) श्री उपेन्द्र राय, ग्राम+पो०-अहियारी, दरभंगा | — सदस्य |

यह योजना दिनांक 25.03.2015 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 546-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>